

E-218Roll No. 

हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा - 2022
Higher Secondary Examination (Main) - 2022

रसायनशास्त्र
CHEMISTRY

(Hindi & English Versions)

Total
Questions : 19

Total Printed
Pages : 11+1
Blank

Time :
3 Hours

Maximum
Marks : 70

निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके कुल 28 अंक हैं ।
- (iii) प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है । (शब्द सीमा 30 शब्द)
- (iv) प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है । (शब्द सीमा 75 शब्द)
- (v) प्रश्न क्रमांक 17 के 4 अंक निर्धारित हैं । (शब्द सीमा 120 शब्द)
- (vi) प्रश्न क्रमांक 18 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है । (शब्द सीमा 150 शब्द)
- (vii) प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक प्रत्येक में आन्तरिक विकल्प दिये गये हैं ।

Instructions :

- (i) All questions are **compulsory**.
- (ii) Question Nos. 1 to 4 are objective type questions carry total 28 marks.
- (iii) Question Nos. 5 to 12, each question carries 2 marks. (word limit 30 words)
- (iv) Question Nos. 13 to 16, each question carries 3 marks. (word limit 75 words)
- (v) Question Nos. 17 carry 4 marks. (word limit 120 words)
- (vi) Question Nos. 18 to 19, each question carries 5 marks. (word limit 150 words)
- (vi) Internal choice is given in every question from Question Nos. 5 to 19.



1 सही विकल्प चुनकर लिखिये :

1×7=7

(i) शुष्क बर्फ है -

- (a) आयनिक (b) आण्विक
(c) धात्विक (d) सहसंयोजक

(ii) किस यौगिक में 8:8 समन्वयन संख्या पायी जाती है ?

- (a) MgO (b) Al_2O_3
(c) $CsCl$ (d) $NaCl$

(iii) रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है -

- (a) As_2S_3 (b) जिलेटिन
(c) Au (d) $Fe(OH)_3$

(iv) कैलोमल है -

- (a) Hg_2Cl_2 (b) $HgCl_2$
(c) $Hg_2Cl_2 + Hg$ (d) $HgCl_2 + Hg$

(v) किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है ?

- (a) H_2O (b) Na_2O
(c) OF_2 (d) MgO

(vi) नायलॉन उदाहरण है -

- (a) पॉलिएमाइड का (b) पॉलिथीन का
(c) पॉलिएस्टर का (d) पॉलिसैकेराइड का

(vii) निम्न में से कौन सा प्रशान्तक है ?

- (a) सेकोनल (b) स्ट्रेप्टोमाइसिन
(c) मारफीन (d) पेरिसिटामोल



Choose and write correct options :

(i) Dry ice is -

- (a) Ionic (b) Molecular
(c) Metallic (d) Covalent

(ii) Which compound has 8:8 coordination number ?

- (a) MgO (b) Al_2O_3
(c) $CsCl$ (d) $NaCl$

(iii) Sol which acts as protective colloids is -

- (a) As_2S_3 (b) Gelatine
(c) Au (d) $Fe(OH)_3$

(iv) Calomel is -

- (a) Hg_2Cl_2 (b) $HgCl_2$
(c) $Hg_2Cl_2 + Hg$ (d) $HgCl_2 + Hg$

(v) In which compound oxygen give +2 oxidation state ?

- (a) H_2O (b) Na_2O
(c) OF_2 (d) MgO

(vi) Nylon is an example of -

- (a) Polyamide (b) Polythene
(c) Polyester (d) Polysaccharide

(vii) Which is Tranquilizer in the following ?

- (a) Seconal (b) Streptomycine
(c) Morphine (d) Paracetamol



2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये :

1×7=7

- (i) कुल _____ प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं ।
- (ii) अभिक्रिया की दर अभिकारक के सान्द्रण के _____ होती है ।
- (iii) स्कन्दन _____ के विपरीत होता है ।
- (iv) फ्लोरस्फार का सूत्र _____ है ।
- (v) सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बन्धुता _____ तत्व की होती है ।
- (vi) टेफ्लॉन _____ का बहुलक है ।
- (vii) फ्यूरासिन _____ औषधि है ।

Fill in the blanks :

- (i) Crystal systems are total _____ types.
- (ii) The rate of reaction is _____ of concentration of reactant.
- (iii) Coagulation is opposite of _____.
- (iv) The formula of Fluorspar is _____.
- (v) The highest electron affinity has _____ element.
- (vi) Teflon is a poymer of _____.
- (vii) Furacin is _____ drug.

3 सही जोड़ी बनाइए :

1×7=7

- | A | B |
|---------------------|---------------------|
| (i) काँच | (a) XeF_4 |
| (ii) धातुमल | (b) $C_6H_{12}O_6$ |
| (iii) वर्गसमतलीय | (c) RNH_2 |
| (iv) उदासीन लीगैण्ड | (d) CO |
| (v) स्पिट ऑफ वाइन | (e) $CaSiO_3$ |
| (vi) प्राथमिक एमीन | (f) H_2SO_4 |
| (vii) ग्लूकोस | (g) अक्रिस्टलीय ठोस |
| | (h) C_2H_5OH |



Match the pairs correctly :

A	B
(i) Glass	(a) XeF_4
(ii) Slag	(b) $C_6H_{12}O_6$
(iii) Square planer	(c) RNH_2
(iv) Neutral ligand	(d) CO
(v) Sprit of wine	(e) $CaSiO_3$
(vi) Primary Amine	(f) H_2SO_4
(vii) Glucose	(g) Amorphous solid
	(h) C_2H_5OH

4 एक शब्द/वाक्य में उत्तर लिखिए :

1×7=7

- आर्हीनियस समीकरण लिखिए ।
- कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम लिखिए ।
- बैन्जेल्डिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम लिखिए ।
- तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, क्यों ?
- बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए ।
- पॉलीथीन का एकलक लिखिए ।
- किसी एक ज्वरनाशी का नाम लिखिए ।

Answer in one word/sentence :

- Write Arrhenius equation.
- Write the name of noble gas which is used in therapy of cancer.
- Write the name of condensation reaction of benzaldehyde with KCN .
- Why tertiary amines not give acylation reaction ?
- Write the name of protein which is present in hair, wool and silk.
- Write the monomer of polythene.
- Write the name of any one antipyretic.

5 जल की मोललता ज्ञात कीजिए ।

2

Calculate the molality of water.

अथवा / OR

मोलरता को परिभाषित कीजिए ।

Define the Molarity.

6 अधिशोषण और अवशोषण में दो अन्तर लिखिए ।

2

Write two differences between adsorption and absorption.

अथवा / OR

ब्राउनी गति को परिभाषित कीजिये ।

Define the Brownian movement.

7 अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है, क्यों ?

2

Why ammonia has high boiling point ?

अथवा / OR

प्रकृति में सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्यों ?

Why sulphur founds solid state in nature ?

8 हैलोजन रंगीन होते हैं, क्यों ?

2

Why halogens are coloured ?

अथवा / OR

उत्कृष्ट गैसों अक्रिय होती हैं, क्यों ?

Why noble gases are inert ?


9 द्विकलवण और संकुल यौगिक में दो अन्तर लिखिये ।

2



Write two differences between double salt and complex compound.

अथवा / OR

निम्न उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए :



Write IUPAC names of the following coordination compounds :



10 प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के उदाहरण लिखिए ।

2

Write examples of primary and secondary amines.

अथवा / OR

एमीन जल में विलेय होते हैं, क्यों ?

Why amines are soluble in water ?

11 ज्विटर आयन किसे कहते हैं ?

2

Write the definition of Zwitter ion.

अथवा / OR

DNA और RNA में दो अन्तर लिखिए ।

Write two differences between DNA and RNA.



12 किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिये ।

Write names of any two antibiotics.

अथवा / OR

किन्हीं दो कृत्रिम मधुरकों के नाम लिखिये ।

Write names of any two artificial sweeteners.

13 यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में विलेय है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करो ।

5.85 gm NaCl dissolve in 250 gm water. Calculate the molality of solution.

अथवा / OR

ग्लूकोस के 5% विलयन के 25°C पर परासरण दाब की गणना कीजिये ।

$R=0.0821$ लिटर वायुमण्डल । ग्लूकोस का अणुभार = 180

Calculate the osmotic pressure of 5% solution of glucose at 25°C.

$R=0.0821$ lit. atm. M.W. of glucose = 180

14 शून्य कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइये ।

Explain zero order reaction with example.

अथवा / OR

छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइये ।

Explain pseudo order reaction with example.



15 निम्न परिवर्तनों के केवल रासायनिक समीकरण लिखिये :

3

(i) एथेनॉल से डाईएथिल ईथर

(ii) डाईएथिल ईथर से एथेनॉल

(iii) एथेनॉल से एथिल एसीटेट

Write only chemical equations for following conversions :

(i) Ethanol to diethyl ether <https://www.mpboardonline.com>

(ii) Diethyl ether to ethanol

(iii) Ethanol to ethyl acetate

अथवा / OR

फिनॉल और एल्कोहॉल में कोई तीन अन्तर लिखिये ।

Write any three differences between phenol and alcohol.

16 निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिये :

3

(i) $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2CHO$

(ii) $CH_3CH = CHCHO$

(iii) $(CH_3)_3CCH_2COOH$

Write the IUPAC names of the following :

(i) $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2CHO$

(ii) $CH_3CH = CHCHO$

(iii) $(CH_3)_3CCH_2COOH$

अथवा / OR

निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिये :

(i) पर्किन अभिक्रिया

(ii) कैनिजारो अभिक्रिया

(iii) रोजेनमुण्ड अभिक्रिया

Write chemical equations of the following reactions :

(i) Perkin reaction

(ii) Cannizaro reaction

(iii) Rosenmund reaction



- (i) n -ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहॉलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है ।
- (ii) शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है ।
- (iii) शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है ।
- (iv) मेथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहॉलिक KCN से होती है ।

What happens when : (Give only chemical equation)

- (i) n -Butyl chloride react with alcoholic KOH .
- (ii) Methyl bromide react with sodium in the presence of dry ether.
- (iii) Bromo benzene react with Mg in the presence of dry ether.
- (iv) Methyl chloride react with alcoholic KCN .

अथवा / OR

निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिये :

- (i) फिटिंग अभिक्रिया
- (ii) हुन्सडीकर अभिक्रिया
- (iii) सेण्डमेयर अभिक्रिया
- (iv) फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया

Write chemical equations of the following reactions :

- (i) Fittig reaction
- (ii) Hunsdiecker reaction
- (iii) Sandmeyer's reaction
- (iv) Friedel Crafts reaction



18 कोलरॉश नियम को उदाहरण सहित समझाइए एवं इसके दो अनुप्रयोग लिखिए । 5

Explain Kohlraush law with example and write its two applications.

अथवा / OR

निम्न को परिभाषित कीजिये :

- (i) विशिष्ट चालकता
- (ii) तुल्यांकी चालकता
- (iii) आण्विक चालकता
- (iv) सैल स्थिरांक
- (v) विशिष्ट प्रतिरोध

Define the following :

- (i) Specific conductivity
- (ii) Equivalent conductivity
- (iii) Molar conductivity
- (iv) Cell constant
- (v) Specific resistance

19 लेन्थेनाइड एवं एक्टिनाइड में कोई पाँच अन्तर लिखिये । 5

Write any five differences between Lanthanoids and Actinoids.

अथवा / OR

संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिये एवं संक्रमण तत्वों के कोई चार अभिलाक्षणिक गुणों को समझाइए ।

Write general electronic configuration of transition elements and explain any four characteristic properties of transition elements.

